



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34 पटना, बुधवार, 29 श्रावण 1936 (श०)  
20 अगस्त 2014 (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्यध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-5
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	6-6
पूरक	---
पूरक-क	---

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

### वाणिज्य-कर विभाग

#### अधिसूचना

6 अगस्त 2014

सं० 6/सं०-4-01/2012-3590/(वा०कर)-बिहार वित्त सेवा संवर्ग के श्री गोपाल प्रसाद, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल, कटिहार को वेतनमान (9,300-34,800+ग्रेड पे 5,400 रु०) के पद पर परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि 01.01.2011 के प्रभाव से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जय प्रकाश ठाकुर, अवर सचिव।

### योजना एवं विकास विभाग

#### अधिसूचनाएं

5 अगस्त 2014

सं० यो०स्था०-4/2-11/2014/3386 यो०वि०—योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में पदस्थापित निम्नलिखित कार्यपालक अभियंताओं को प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	कार्यपालक अभियंता का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन स्थान
1	2	3
1	श्री रामायण राम, कार्यपालक अभियंता, स्था०क्ष०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	कार्यपालक अभियंता, स्था०क्ष०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-किशनगंज।
2	श्री बाला लखंदर दास, कार्यपालक अभियंता, स्था०क्ष०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-किशनगंज	कार्यपालक अभियंता, स्था०क्ष०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-जमुई।
3	श्री चन्देश्वर राय, कार्यपालक अभियंता, स्था०क्ष०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-जमुई	कार्यपालक अभियंता, स्था०क्ष०अभि०सं०, कार्य प्रमंडल-जहानाबाद।

2. उपर्युक्त कार्यपालक अभियंता अविलम्ब पद का प्रभार सौंप कर अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

3. स्थानांतरित कार्यपालक अभियंता माह अगस्त, 2014 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
पंकज कुमार, सचिव।

5 अगस्त 2014

सं०: यो०स्था०1/4-2/12-3387 यो०वि०—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न जिला योजना कार्यलयों में पदस्थापित निम्नलिखित जिला योजना पदाधिकारी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरित करते हुए कॉलम 4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानांतरण के फलस्वरूप पदस्थापन स्थान/जिला
1	2	3	4
1	श्री उमाशंकर पाल	जिला योजना कार्यालय, जहानाबाद	जिला योजना कार्यालय, शिवहर
2	श्री अर्जुन सिंह	जिला योजना कार्यालय, अरवल	जिला योजना कार्यालय, जहानाबाद

2. श्री अर्जुन सिंह, जिला योजना पदाधिकारी, अरवल के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री सुभाष दास राम, सहायक योजना पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी अरवल के प्रभार में रहेंगे।
3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी अविलंब पद का प्रभार सौंप कर अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन अविलंब विभाग को उपलब्ध करायेगें।
4. स्थानांतरित पदाधिकारी माह अगस्त, 2014 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
पंकज कुमार, सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 22—571+30-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मुख्य अभियंता का कार्यालय  
जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश  
2 अगस्त 2014

सं० 1 स्था०अनु०-12-1125/2012-85—समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति प० चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 156/स्था० दिनांक 01.03.2014 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकम्पा समिति प० चम्पारण बेतिया की दिनांक 27.01.2014 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राजू कुमार पाण्डेय, पिता स्व० अवधेश प्रसाद पाण्डेय, भूतपूर्व कोषरक्षक, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं०-3, मधुबनी शिविर पडरौना की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पे-1800 (मैट्रिक) रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ठकराहा शिविर गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 तक निश्चित रूप से दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. स्व० अवधेश प्रसाद पाण्डेय के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री राजू कुमार पाण्डेय पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर श्री राजू कुमार पाण्डेय की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण—पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण—पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राजू कुमार पाण्डेय से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11— उप—सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा।

आदेश से,

दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**

# भाग-9(ख)

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

### सूचना

सं० 1377—मैं अमित कुमार पिता श्री गंधेश्वर प्रसाद वर्मा, रोड न०-19, राजीवनगर, पोस्ट— केशरी नगर, पटना-24 शपथ पत्र संख्या 8032 दिनांक 23.06.2014 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब से आगे सभी कार्यों के लिए मैं अमित कुमार वर्मा के नाम से जाना जाऊँगा।

अमित कुमार।

No. 1377—I Amit Kumar S/o Sh. Gandheshwar Prasad Verma R/o Road No.-19, Rajiv Nagar, P.O.-Kehsrinagar, Patna-24 declare Vide afdvt. No.-8032 Dated 23.06.2014 that from now onwards I shall be known as Amit Kumar Verma for all future purposes.

AMIT KUMAR.

सं० 1385—मैं Vinod Kumar, S/o-Jagdish Prasad, Madnani Gali, Mithanpura, Muzaffarpur घोषणा करता हूँ कि आज से मैं Vinod Kumar Kejriwal, S/o Jagdish Prasad Kejriwal के नाम से जाना जाऊंगा। Affidavit No. 14960 / 17.07.2014

VINOD KUMAR.

सं० 1386—मैं Ankur Kumar, S/o-Shri Vinod Kumar, Madnani Gali, Mithanpura, Muzaffarpur घोषणा करता हूँ कि आज से मैं Ankur Kumar Kejriwal, S/o Shri Vinod Kumar Kejriwal के नाम से जाना जाऊंगा। Affidavit No. 6295 / 13.03.2014

ANKUR KUMAR

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 22—571+30-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>